

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 जनवरी 2023

### प्रश्न -1

किस निम्नलिखित राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था?

- A) उत्तर प्रदेश
- B) राजस्थान
- C) महाराष्ट्र
- D) गुजरात

**सही उत्तर: D**

अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव या पतंग उत्सव 2023 अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था। 08 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा उद्घाटन किए गए महोत्सव का समापन 14 जनवरी को हुआ था।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में 'ओवरऑल चैंपियनशिप' जीती है?

- A) महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी
- B) श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी
- C) केरल यूनिवर्सिटी
- D) योगी वेमना यूनिवर्सिटी

**सही उत्तर: C**

केरल यूनिवर्सिटी ने तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्व विद्यालय ( SPMVV) में संपन्न हुए इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में 'ओवरऑल चैंपियनशिप' जीती। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम उपविजेता रहा।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 जनवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पहला डॉ पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार जीता?

- A) वैकैया नायडू
- B) रतन टाटा
- C) गौतम अडानी
- D) अदार पूनवाला

**सही उत्तर: D**

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनवाला को हाल ही में पहले डॉ पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोविड- 19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए टीका निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसके CEO अदार पूनवाला की सराहना की।

### प्रश्न-4

विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा?

- A) टोंगा
- B) न्यूज़ीलैंड
- C) हवाई
- D) फिजी

**सही उत्तर: D**

विदेश मंत्रालय फिजी सरकार के साथ साझेदारी में 15-17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का स्थल डोनाटारू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (DICC), नांदी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 जनवरी 2023

### प्रश्न-5

\_\_\_\_\_ राज्य ने राज्य की महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।

- A) केरल
- B) राजस्थान
- C) तमिलनाडु
- D) उत्तराखंड

**सही उत्तर: D**

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण) विधेयक , 2022 को मंजूरी देने के साथ , उत्तराखंड राज्य अधिवास वाली महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग आयोजित की गई थी?

- A) गुजरात
- B) पंजाब
- C) राजस्थान
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: B**

खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग का आयोजन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय , पंजाब में 10 जनवरी से 13 जनवरी तक किया गया था। लीग का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 जनवरी 2023

### प्रश्न-7

हाल ही में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदों के मामले में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं?

- A) दिनेश कार्तिक
- B) सूर्यकुमार यादव
- C) रोहित शर्मा
- D) विराट कोहली

**सही उत्तर: B**

सूर्यकुमार यादव गेंदों के मामले में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1,500 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में केवल 843 गेंदें लगीं।

### प्रश्न-8

भारत में मेटा के वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

- A) अजीत मोहन
- B) मनीष कुमार वर्मा
- C) संध्या देवनाथन
- D) विकास पुरोहित

**सही उत्तर: D**

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मेटा ने हाल ही में विकास पुरोहित को भारत में अपने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक नामित किया है ताकि विज्ञापनदाताओं और एजेंसी भागीदारों के साथ काम करने की रणनीति का नेतृत्व किया जा सके।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 जनवरी 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अनुराग कुमार
- B) गुरदीप सिंह
- C) के. श्रीकांत
- D) वाई.के. चौबे

**सही उत्तर: A**

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने अनुराग कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31.01.2026 तक मंजूरी दे दी है।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस देश के ह्यूगो लोरिस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है?

- A) जर्मनी
- B) फ्रांस
- C) ब्राज़ील
- D) अर्जेंटीना

**सही उत्तर: B**

फ्रांस के विश्व कप विजेता गोलकीपर और कप्तान ह्यूगो लोरिस ने हाल ही में 36 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया, 2012, 2016 और 2020 में यूरोपीय चैंपियनशिप के साथ-साथ 2010, 2014, 2018 और 2022 विश्व कप टूर्नामेंट में भी खेले।